

Date: August 2, 2023

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited

(Scrip Code: 532777)

Sub: <u>Intimation of Publication of Notice of the 28th Annual General Meeting and Remote E-voting Information</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication regarding Notice of the 28th Annual General Meeting, Remote E-voting Information & e-mailing of Annual Report for FY 2022-23 published in the following editions:

- Financial Express (National Daily newspaper) on August 2, 2023
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on August 2, 2023

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office: Ground Floor, 12A, 94, Meghdoot, Nehru Place, New Delhi-110019

Franklin Templeton plans private credit foray in India

FRANKLIN TEMPLETON'S **INDIA** unit is preparing a private credit fund, according to people with knowledge of the matter, which will enable it to lend to companies in a market

Nehru Place, New Delhi-110019.

(Cut-off date for sending the Notice).

as set out in the Notice

Company on August 1, 2023.

https://www.evoting.nsdl.com.

Friday, August 25, 2023.

where banks and shadow lenders have retreated from all but the highest-rated credit.

people said. Kamath's appetite for high-vield Indian debt Santosh Kamath, who was chief investment officer at helped create the nation's mar-Franklin Templeton Asset ket for lower-rated corporate

infoedge INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-110019

Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095

Website: http://www.infoedge.in; Email: investors@naukri.com

NOTICE OF THE 28th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held

on Friday, August 25, 2023 at 05:30 P.M. IST, through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means

(OAVM) to transact the businesses as set out in Notice convening the 28th AGM of the Company which has

been sent to the members of the Company along with Annual Report for the FY 2022-23. The venue of the

meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at GF-12A, 94, Meghdoot Building,

Pursuant to the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate

Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the

Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'the Circulars'),

companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a

common venue. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The Company, in

compliance with the Circulars, has on August 1, 2023, duly sent the AGM Notice and Annual Report 2022-23

by e-mail only to the members of the Company holding shares of the Company as on Friday, July 28, 2023

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI

(Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing

Remote E-voting facility (Remote E-voting) and facility of E-voting during the AGM (E-voting) (collectively

referred as 'electronic voting') to all eligible members as per applicable provisions of the Act and the circulars

on all the business items as set out in the Notice of AGM. Members who will not cast their votes by Remote

E-voting shall be able to vote at the AGM through E-voting. The Company has engaged the services of

National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide electronic voting facility and facility

to conduct the AGM through VC/OAVM. Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, failing him Mr. Shashikant

Tiwari, Partner, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries have been appointed as Scrutinizer

a. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e.

b. The e-mailing of AGM Notice along with the Annual Report 2022-23 has been completed by the

c. The Remote E-voting period commences on Monday, August 21, 2023, 09:00 A.M. IST and ends on

d. Any person, who acquires shares of the Company & becomes member of the Company after dispatch of

thereafter and Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date.

Thursday, August 24, 2023, 05:00 P.M. IST. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting

the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, August 18, 2023, may obtain

the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or at evoting@naukri.com. If a

person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for

not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by Remote E-voting

Members may note that the Notice of 28th AGM is available for inspection at registered office of the

Company during normal hours on any working day and is also available on the website of the Company

at www.infoedge.in and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. and National Stock Exchange of

India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at

Webcast on the NSDL website. The members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com by

using their Remote E-voting credentials. The Webcast facility will be available 05:30 P.M. onwards on

h. Those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail

The Company has fixed Friday, July 28, 2023 as the 'Record Date' for determining entitlement of members

for payment of final dividend for FY 2022-23, if approved at the AGM. Those members who have not

updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent out to their

registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC

with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar

& Share Transfer Agent-M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. (LinkIntime) (where shares are held in physical

mode) by updating the details prescribed in FORM ISR-1 and other relevant forms with LinkIntime. Forms

Members may note that the Income-tax Act, 1961, (the IT Act) as amended by the Finance Act, 2020,

mandates that dividends paid or distributed by a company after April 1, 2020 shall be taxable in the

hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of

making the payment of final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as

applicable, members are requested to submit relevant documents in accordance with the provisions of

the IT Act. Members are requested to visit https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Servic-

es_Tax for format of relevant declaration(s), instructions and information on this subject. The documents

are required to be uploaded at https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

on or before August 14, 2023. No communication would be accepted from members after August 14,

2023 regarding tax-withholding matters. Shareholders may write to dividend.tds@infoedge.com for any

In case of any grievance/concern connected with electronic voting, members may contact Ms. Pallavi

Mhatre at e-mail evoting@nsdl.co.in, contact no. 022-4886 7000 and 022-2499 7000. Members may also

contact Ms. Jaya Bhatia, Company Secretary for any concern connected with electronic-voting at the

Corporate Office of the Company at B-8, Sector-132, Noida-201304 (U.P.), Tel.: +91-120-3082005, e-mail:

address registered for electronic voting by following the procedure given in the AGM Notice.

are also available at https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Services_CS

g. Members may note that the Company will be providing a facility to view the live streaming of the AGM

e. Once a vote on a resolution is cast by the member by using Remote E-voting facility, the member shall

prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

for conducting the electronic voting process in accordance with the law in a fair and transparent manner.

Management (India), will bonds and turned him into one of the country's best-known manage the new strategy, the investors before Templeton was forced to freeze and wind up six of his funds in 2020.

—BLOOMBERG

SIDDHANT MISHRA

& KISHOR KADAM

Mumbai, August 1

months.

SHARES OF ITC have been on

the boil, and not surprisingly,

the country's largest institutional investor has signifi-

cantly contributed to its meteoric rise in the past few

Life Insurance Corp of India (LIC), increased its exposure to

ITC the most during the June

quarter (Q1), in terms of mar-

ket value. LIC's investment in

ITC jumped ₹12,937 crore —

the most in Q1 — to \$85,672

crore. L&T was second in the

pecking order, and the insurer

increased its investment by

tries remains LIC's crown jewel,

with the latter's total holding in

the conglomerate at close to ₹1

trillion. During the quarter, it

saw fresh investments of

LIC's investments saw a ₹1.04-

trillion, or a 11.29%, jump

from ₹9.16 trillion in Q4FY23

to ₹10.20 trillion in Q1FY24.

panies in the NSE 500 uni-

verse, and has stake in 43 firms

ance major sold stakes in 73

companies, and bought addi-

tional shares in 45 entities. Its

holding remained unchanged

of the Nifty-50 bucket.

It holds stakes in 185 com-

During Q1, the life insur-

Overall, the market value of

Of course, Reliance Indus-

₹10,699 crore.

₹7,191 crore.

Data from Capitaline show the country's largest investor,

Chola PAT climbs 28% on growth in disbursals



FE BUREAU Chennai, August 1

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

Company Finance (Chola), the financial services arm of the Murugappa Group, on Tuesday reported a 28% increase in its profit after tax (PAT) to ₹726 crore for the first quarter of the current fiscal, compared with ₹566 crore in the yearago period, because of higher disbursements. Total income stood

at ₹4,134 crore, against ₹2,771 crore, logging a growth of 49%. Aggregate disbursements were at ₹20,015 crore, with compared ₹13,329 crore, an increase of 50%. Assets under management (AUM) grew 42% to ₹1,22,755 crore, Chola said in a statement.

The board has approved a proposal for ₹4,000-crore fundraise through the QIP route. Vehicle finance disbursements were at ₹11,301 crore, against ₹8,562 crore, registering a growth of 32%. The loan against property business disbursed ₹2,679 crore, rising 32% from ₹2,036 crore. The home loan and

SME loan businesses reported robust growth of 138% and 98%, respectively. The consumer and small enterprises loan segment posted a 123% jump.


The company continues to hold a strong liquidity position with ₹7,069 crore as cash balance as of the end of June 2023, with a total liquidity position of ₹9,479 crore (including undrawn sanctioned lines), it said.

Stage 3 levels have marginally increased to 3.06% in June 23 from 3.01% in March 23. The GNPA percentage reduced to 4.30% from 4.63% in March 23 and NNPA dropped to 2.82% from 3.11% in the previous quarter.

LIC'S INVESTMENT BASKET

dazzling rise in ITC stock

LIC contributes big to



in 67 firms compared to the

March quarter.

"LIC seems to be focusing on blue-chip stocks for now, and is raising bets in the likes of RIL and ITC. The demerger of hotels business was expected and its other businesses have been doing well," said Deepak Jasani, head of retail research at **HDFC Securities.**

In recent times, ITC's commentary on the hotels business has also boosted the investor sentiment. "Post-demerger, ITC's return on capital employed (RoCE) shall improve by 18-20%, and the return on invested capital by double digits," ITC said in an analysts call, according to a report by Nuvama Institutional Equities. It added that the new entity's focus would be on an 'asset right' model. "L&T is generating a lot of

interest, thanks to heavy spends on infra. While it underperformed up to two quarters ago, its order book has led it to outperform over the past few months, and prospects for the next few quarters look strong," said independent market analyst Ambareesh Baliga.

Airtel, too, saw an additional investment of ₹4,152 crore. Baliga pointed out that rising ARPUs (average revenue per user), and the management expectation of ARPU touching ₹300 over the next 15 months have made it a strong bet.

On te other hand, two Adani Group firms were the major losers. LIC pared its holding in Adani Total Gas and Adani ₹632.25 on June 30.

Transmission by ₹1,411 crore

and ₹946 crore, respectively. "LIC could have booked profits in Adani Group stocks that have recovered sharply from their lows, and may have preferred to limit its investment in those," said Jasani.

As regards 43 Nifty stocks in which LIC has a holding, the market value of its investments surged by ₹77,853 crore (11.07%) to ₹7.81 tril lion. For the remaining 142 non-Nifty stocks, its value rose by ₹25,633 crore (9.95%) to ₹2.83 trillion.

The Sensex and Nifty gained 9.71% and 10.54%, respectively, during the quarter, while LIC's share price jumped 18.32%, ₹534.35 on March 31 to

Shriram General eyes EV, non-motor insurance business to drive growth

SAJAN C KUMAR Chennai, August 1

SHRIRAM GENERAL INSUR-**ANCE** Company (SGIC) on Tuesday said it is eyeing the electric vehicle (EV) insurance and non-motor segments in a big way as part of its growth

While the motor insurance business currently accounts for 92% of its total business, Shriram plans to reduce it to 85% over a period of three years, which will pave the way for other verticals to grow. The company is targeting to clock a 30% growth in premium for

"Our phygital approach is the main driver during the quarter. While we remain focused on existing business streams, we believe newer areas like EV insurance and developing a stream of combo insurance plans will help the market and drive the growth for us. We are also looking at expanding into the non-motor segment for SMEs," Anil Kumar Aggarwal, MD & CEO, told select

He said the EV insurance business has been increasing significantly, and clocked a 159% year-on-year growth during Q1FY24. "Our focus is to write Rs 200-crore premium in the EV business in the whole FY24, which will be a growth of 125% as compared to the previous year," he said.

media persons in Chennai.

The insurer, jointly owned

Crude prices drive commodity index

The Bloomberg Commodity Index rose by 9.35%, from its 52-week low of 97.96 as on May 31 to 107.13 on August 1, in two months, reports Kishor Kadam. During this period, prices of Brent crude jumped by 16.64% from \$72.66 per barrel to \$84.75 per barrel, as global oil markets were hit by

outages and unseasonably low stockpiles at key storage hubs on the US Gulf Coast and in Singapore. Price rise in rice, wheat, corn and other agricultural commodities is likely to spur a rebound in global food costs after a long run of declines.

unexpected refinery

Bloomberg commodity index 107.13 130 **119.80** 106 98 Aug 1, 2022 Aug 1, 2023 Source: Bloomberg

FROM THE FRONT PAGE

Data protection: Grievance officer must for Big Tech

by Shriram Group and Africa's

Sanlam Group, said 82% of all

its policies now comes from

online purchases and the com-

pany introduced three new

products during the quarter.

Its gross written premium

(GWP) for Q1FY24 stood at Rs

560 crore, a rise of 39% over

the same period last year. The

bulk of the premium income

was from motor insurance at

gross written premium grew

39% and the profit by 37%.

SGICwrote 13,03,340 policies,

driven by higher digital selling

of traditional and new combo

During the first quarter, the

Rs 496.72 crore.

products in Q1.

THE GOVERNMENT has capped the penalty at ₹250 crore, while keeping the scope open for increase in amount to two times through a modification in the schedule. In the earlier version of the Bill, the government had specified the penalty at ₹500 crore.

The Data Protection Bill will, however, go easy on startups. As per the provision of the Bill, the government may also notify certain companies and startups based on the volume of data processed which will be exempted from key provisions relating to usage and purpose of data collected from citizens.

This means that unlike big data fiduciaries, upon approval from the government, startups may not be bound by limitations such as collecting the absolute minimum data required for any purpose and limiting its usage to the intended purpose. They also may not be required to delete the data once the service for which it was collected has been delivered.

On the cross-border data share, the government will specify a list of negative coun-

tries, where personal data of users can not be transferred. "The central government may, by notification, restrict

New Delhi

the transfer of personal data by a Data Fiduciary for processing to such country or territory outside India as may be so notified," the leaked version of the

Among key changes in the revised Bill, the government has opened the scope to reduce the age cap of children to below 18 years for companies to seek parental consent before processing their data.

Bill said.

Meanwhile, on Tuesday, the Standing Committee on Communications and Information Technology pitched for urgent enactment of the Bill, without specifying any significant recommendations or changes.

The committee, chaired by Shiv Sena member of parliament Prataprao Jadhav, said it strongly advocates for the immediate action of enacting the Bill to protect the interests and rights of citizens in the digital age.

This is the second attempt by the government to pass the Personal Data Protection Bill in Parliament. In 2022, the government had withdrawn the Bill after it was referred to the Joint Committee of Parliament, which suggested key changes.

"Delaying the implementation of such a comprehensive framework could potentially expose individuals to various risks and compromise the privacy rights of citizens," the committee said in a report titled Citizens' Data Security

and Privacy, tabled in Parliament on Tuesday.

Among the key recommendations, the committee has asked the government to modify the consent and notice mechanisms going forward, by including the visual elements for easier understanding by people. The committee urged the IT ministry to incorporate these enabling provisions, so as to extend its benefits to digitally illiterate individuals, ensuring their inclusion in the evolving landscape of data privacy and protection, it said.

Further, to simplify the process and avoid the need to read the entire document containing terms and conditions, the committee has recommended the government to provide a summary or gist of the terms and conditions to the Data Principal.

"However, the committee also wishes to caution the ministry about the judicious use of rule-making powers and emphasises the importance of employing them responsibly and with utmost care," it said. The Bill, however, wit-

nessed backlash from Rajya Sabha MP John Brittas, who presented a note of dissent, stating that the government has given exemptions to its agencies on grounds like sovereignty and integrity of India thereby giving itself unfettered powers. Brittas also advocated for compensation to people in case of data breach.

MPS LIMITED

clarifications on this subject.

evoting@naukri.com.

Place: Noida

Date: August 1, 2023

Registered Office: 4th Floor, R.R Towers IV, Super A, 16/17, T.V.K. Industrial Estate, Guindy, Chennai 600 032 Corporate Office: A-1, Tower A, 4th Floor Windsor IT park, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201 303, CIN: L22122TN1970PLC005795 Tel: +91 44 49162222, Fax: +91 44 49162225, Email: investors@mpslimited.com, Website: www.mpslimited.com

By Order of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer

For Info Edge (India) Ltd.

	Standalone			Consolidated			
Particulars	Quarter Ended 30-June-2023	Previous year ended 31-March-2023	Corresponding quarter ended in the previous year	Quarter Ended 30-June-2023	Previous year ended 31-March-2023	Corresponding quarter ended in the previous year 30-June-2022	
			30-June-2022				
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total Income from operations	8,025	29,801	6,891	13,251	50,105	11,485	
Net Profit for the period before tax	3,355	11,660	2,180	4,056	14,693	2,808	
Net Profit for the period after tax	2,465	8,628	1,595	3,030	10,919	2,064	
Total Comprehensive Income for the period	2,397	9,011	1,733	2,989	12,095	2,473	
Equity Share Capital	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,805	
Other Equity	33,488 (As on	33,488 (As on	30,889 (As on	41,004 (As on	41,004 (As on	34,977 (As on	
	31st March, 2023)	31st March, 2023)	31st March, 2022)	31st March, 2023)	31st March, 2023)	31st March, 2022)	
Earnings Per Share (INR 10 per equity share)			E 170 E 181 W	250 13	100 100 100 100 100	F. C. 19985 32	
Basic and diluted (INR)	14.52	50.47	9.32	17.84	63.87	12.07	

- 1. The above standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023, have been reviewed by the Audit Committee and upon their recommendation approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 01 August 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the financial results for the quarter ended 30 June 2023 and an unmodified report has been issued.
- The above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter ended 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023 are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.mpslimited.com)

For MPS Limited Rahul Arora Chairman and CEO

financialexp.epap.in

Place: Melbourne. Australia

Date: 01 August 2023

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राकेश पुत्र राजिन्दर निवासी सी–393, द्वितीय तल, जेजे कालोनी, वजीरपुर, दिल्ली ने केस एफआईआर नं. 632/20 अन्तर्गत धारा 379/411 आईपीसी के तहत थाना मोती नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राकेश मिल नहीं रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दियाँ गया है कि उक्त अभियुक्त राकेश फरार हो गया हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि केस एफआईआर नं. 632/20 अन्तर्गत धारा 379/411 आईपीसी के तहत थाना मोती नगर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त राकेश से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 04.09.2023 को या उससे पहले हाजिर हों। आदेशानुसार

DP/8504/WD/2023 (Court Matter)

शगुन महानगरीय दण्डाधिकार-04 (पश्चिम) कमरा नं. 268, द्वितीय तल तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की

(फोटो में दर्शायी गई) जिसका नाम **वर्षा रायकवार उर्फ**

बरसा रायकवार पुत्री गुवंडी रायकवार निवासी मकान नं. 649-650-651, ई-ब्लॉक, गली नंबर 12,

गुमशुदा/अपहृत की तलाश



श्याम विहार फेज-1, नजफगढ, नई दिल्ली जो दिनांक 11.06.2023 को दोपहर 3:00 बजे से अपने घर से लापता / अपहृत है। इस संदर्भ में एक एफआईआर नं. 240 / 2023 अन्तर्गत घारा 363 आईपीसी के तहत दिनांक 13.06.2023 को थाना छावला, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस ने इस लड़की का पता वर्षा रायकवार उर्फ लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन अब तक कोई बरसा रायकवार सुराग नहीं मिला है।

जिसका हलिया नीचे दिया गया है:-

लिंगः महिला, आयुः 13 वर्षं, कदः 4' फीट, रंगः गोरा, चेहराः गोल, शरीरः सामान्य पहनावाः नीले रंग का सूट व संतरी रंग की सलवार और पैरों में काले रंग की चप्पल। अगर किसी को इस गुमशुदा/अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित पतों पर सुचित करें:-थाना प्रभारी थानाः छावला, दिल्ली

वेबसाइटः http://cbi.nic.in ई-मेल: cic@cbi.gov.in ਟੇਕੀ. ਜ.: 011-24368638/24368641 फैक्स नं: 011-24368639

फोनः 011-25316300 मोबाइलः 8750871631 DP/7936/DW/2023

The Indian Express. For the Indian Intelligent.



I arrive at a conclusion not an assumption.

Inform your opinion detailed analysis.



indianexpress.com

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN No.: L65993DL1989PLC035409 Regd. Off.: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017

Ph: +91-11-40517610 | E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023**

-11		Quarter Ended			Year Ended	
SI No.	Particulars	30/06/2023 (Un-Audited)			31/03/2023 (Audited)	
1	Total Income from operations	1,262.82	1,317.95	1,647.26	5,876.38	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	-4,111.44	-2,013.04	-9,642.11	
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	6,702.50	-2,013.04	1,171.83	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	6,702.50	-2,013.04	1,171.83	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-2,604.37	6,700.23	-2.013.04	-1,169.56	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1161.25	1161.25	1161.25	1161.25	
7	Other Equity	1	1	ER.	(35,972.94)	
8	Earnings per Share(of Re 10/- each) for continuing and discontinued operations)-				Area Consession	
a	Basic	-2.24	5.77	-1.73	1.01	
b	Diluted	-2.24	5.77	-1.73	1.01	

Date: 31.07.2023

Place: New Delhi

- . The above results were reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 31st July, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the same.
- . The figures for the previous period have been re-grouped/re-classified to make them comparable with the figures for the current
- The above is an extract of the detailed audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formats of the same are also available on the website of the Company www.aiml.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com. For Alliance Integrated Metalik Ltd

Daljit Singh Chahal (Chairman cum Whole Time Director) DIN: 03331560

(A) IDBI BANK

एनबीसीसी ऑफिस कॉम्पलेक्स, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 फोन नंबर: 011-69297166, 69297163

कर्जदार/सह–कर्जदार को नोटिस

नोटिस नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार को संबोधित है।

हम, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने आपको मंजुरी/ऋण/प्रतिभृति दस्तावेजों के नियमों और शर्तों पर एक फ्लैट खरीदने के लिए रु. 34,13,277/- का गृह ऋण स्वीकृत और वितरित किया है। चुंकि आपने ऋण के पुनर्भगतान में चुक की है, इसलिए आपका ऋण खाता आईडीबीआई बैंक की पुस्तकों में एनपीए बन गया और 10.05.2023 तक बकाया राशि रु. 33,45,367/- (रुपये तैंतीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) तथा 11.05.2023 से उस पर 8.70% की दर से अतिरिक्त ब्याज + 2% दंडात्मक ब्याज है, जो आपके द्वारा आईडीबीआई बैंक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग देय होगा। आईडीबीआई बैंक ने अपने रिकॉल नोटिस दिनांक 06-06-2023 के माध्यम से पहले ही ऋण वापसी की मांग की थी। हालाँकि, आप आईडीबीआई बैंक कं

बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे और इसकी उपेक्षा की है। मंजूरी के संदर्भ में आईडीबीआई बैंक ने आईडीबीआई बैंक, मैसर्स देव साई कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड (बिल्डर) और आपके बीच अपने पर दिनांक 14-07-2023 के माध्यम से दिनांक 11.03.2019 (टीपीए) के त्रिपक्षीय समझौते को लागू किया है और इस मामले में आईडीबीआई बैंक के बकाय भुगतान के संबंध में बिल्डर को टीपीए के नियमों और शर्तों का सम्मान करने के लिए कहा गया। टीपीए के आह्वान के जवाब में, बिल्डर सभी व्यय के साथ आपके ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान इस शर्त के साथ करने के लिए सहमत हो गया कि भुगतान के बाद आईडीबीआई बैंक टीपीए के नियमों और शर्त के अनुसार संबंधित फ्लैट के स्वामित्व विलेख बिल्डर को जारी कर देगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और टीपीए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम आईडीबीआई बैंक आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर 10.05.2023 तक रु. 33.45.367/- (रुपये तैंतीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सडसठ मात्र) तथा 11.05.2023 से वसली तक उस प अतिरिक्त ब्याज के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भूगतान करने की सलाह देते हैं, जिसमें विफल रहने पर टीपीए के पैरा ७ (ए) के अनुसार आईडीबीआई बैंक बिल्डर द्वारा आईडीबीआई बैंक को सभी खर्चों सहित कुल बकाया राशि के भुगतान के विरुद्ध संबंधित फ्लैट को बिल्डर को बेच देगा, परिणामस्वरूप आप संबंधित फ्लैट के सभी दावे खो देंगे।

1710 4						
क्र.स.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम एवं पता					
1.	श्री अमित कुमार सिंह ('कर्जदार') डी-134 गली नंबर 11 डी ब्लॉक, हरि नगर एक्सटेंशन, भाग 2 बदरपुर, नई दिल्ली-110044 ईमेल- amitcredit.option12@gmail.com और amitcredit.option12@gmail.com इसके अलावाः श्री अमित कुमार सिंह ('कर्जदार') पुत्र हरबिंदर चौधरी, मकान नंबर 235 ग्राउंड फ्लोर, चौपाल के पास, खानपुर गांव, नई दिल्ली-110062					
2.	श्रीमती मीनाक्षी कुमारी ('सह-कर्जदार') डी-134 गली नंबर 11 डी ब्लॉक, हरि नगर एक्सटेंशन, भाग 2 बदरपुर, नई दिल्ली-110044					

तिथि : 31.07.2023, स्थान : नई दिल्ली ह./-, अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय एवं कार्यः 7वां के.एम बरवाला रोंड, तलवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा) फोन न0:: 98120-20111,98120-40111 ईमेल आईकी: arceeind@rediffmail.com,

एतदद्वारा सूचित किया जाता है, सेनी (सूचीयन अनिवार्यताऐ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साध पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ, 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा मंजूरी हेतु निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 14 अगस्त, 2023, को आयोजित की जाएगी। कृतेः आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/-

(श्रुति गुप्ता) निर्देशक स्थानः हिसार (हरियाणा) DIN-01742368

John Oakey And Mohan Limited CIN: L15549DL1962PLC003726, Read. Office: Office No. 4, FF, CSC Pocket E Market Mayur Vihar, Phase-2, Delhi - 110091 Email: oakeymohan@gmail.com Website: www.oakeymohan.in, **Tel.:** 0120-2657298

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations 2015,that a meeting of the Board o Directors of the Company will be held on Saturday the 12th August 2023 at 2pm at Mohan Naga Ghaziabad UP inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the guarter ended 30th June 2023.

The Notice is also available on the website of the company at www.oakeymohan.in and coy of the notice has been sent to Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at listing compliance@msei.ir For John Oakey And Mohan Limited (Surendra Kumar Seth) Place: Delhi Company Secretary Mno FCS3650 Dated 31st, July 2023

न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर (राज.) प्रोबेट प्रमाण पत्र हेत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 65/2019 म.दी. 38 अंक्ट पिता सुनिलमोल घोष निवासी मकान नम्बर 210-जी, सरदारपु

डम् ड्रॉप्स अपार्टमेन्ट, लेक्टर ४७ , गुरुग्राम, हरिवाणा-120018 कोर्ट , मार्लबोरो टाउनेशिय , न्यू जर्सी- ०७७५१ (बू. एस. ए.) मो. नं. +1/631) 681-9232, ई-मेल- ghoshsatya@gmail.com satyajeet ghosh@yahoo.com 3. सरोजित योष एत्र स्व. श्री समेन्द्र कुमार योष, निवासी १०२

स्काईनाकं रेजीडेसी, विंड टनल रोड़, मुगैशपाल्या, बेंगलोर ५६००१७ मो. नं. 9845640282, ई मेल iatghosh@dishnetdsl.net. tghosh@rediffmail.com, . श्रीमती रीता योष पुत्री स्थ. श्री समेन्द्र कुमार योष, उम्र बालिग

पीष निवासी- २१० जीं, सरदारपुरा, उदसपुर की प्रतिभूति के सम्बन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनिवम धारा १९२५ धारा ३७२ के अनागंत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिलाने हेत् प्रार्थना यत्र । उक्त नामाकित पार्थी। पार्थीमण ने मतक उच भी उपमेंट कमार गोष के ना

की ऋग और प्रतिभृति की राशि हेर्न् उत्तराधिकार प्रमाण पंत्र प्राप्त करने व अतः सभी संबंधित व्यक्तिवाँ को एतदारा सचित किया जाता है कि वां

नामी गांव में 13 मृतक के नाम 13 एकड कृषि भूमि व उस पर स्थित मकान

बाबत् प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.11.1997 को निष्पादित वसीवत का प्रोबेट प्रमाण पत्र चाहा है। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यावालय की मुद्रा से दिनांक 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर (राज.) जगत ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन : L74999DL1982PLC014411 पंजी. कार्यालय : 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015 वेबसाइट : www.jtel.co.in, ई-मेल : jagattradingenterprises-

limited@gmail.com सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घोषणा अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा 29 के प्रावधानों के अनपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 14 अगस्त, 2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही/तीन महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आंतरिक संहिता के अनसार कम्पनी की प्रतिभतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो शनिवार 1 जुलाई, 2023 से गुरुवार, 17 अगस्त 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। उक्त सुचना कम्पनी की वेबसाईट www.jtel.co.in तथा साथ ही एमएसईआई की वेबसाईट www.msei.in पर देखी जा सकती है।

> बोर्ड के आदेश से जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

स्थान : नोएडा

तिथि : 1 अगस्त, 2023

निर्मल कुमार तपरिया कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी तिथि: 02.08.2023 स्थानः नई दिल्ली एसीएस: 14371

info**edge**

इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201 304 (उत्तर प्रदेश) | दूरभाष : 0120-3082000; फैक्स : 0120-3082095 वेब : http://www.infoedge.in/; ई-मेल : investors@naukri.com

28वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 28वीं एजीएम आहत करने की सचना. जिसे वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट सिंहत कम्पनी के सदस्यों के पास भेजा जा चुका है, में निर्धारित प्रकार्यों के लेन-देन के लिए कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य आडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को 5.30 बजे अप. पर आयोजित की जायेगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय जीएफ-12ए, 94, मेघदुत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 होगा।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (इसके पश्चात सामृहिक रूप से '' परिपत्र'' सन्दर्भित) के अनुसार कम्पनियों को किसी आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित है। परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी ने एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 केवल ई-मेल द्वारा कम्पनी के उन सदस्यों के पास भेज दी है जिनके पास शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 (सूचना भेजने की कट-ऑफ तिथि) तक कम्पनी के शेयर हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 तथा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रकार्य मदों पर अधिनियम के प्रयोज्य प्रावधानों एवं प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार समस्त पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (''ई-वोटिंग'') (सामृहिक रूप से ''इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग'' सन्दर्भित) की सुविधा प्रदान कर रही है। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं करेंगे वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। कम्पनी ने वीसी के माध्यम से एजीएम संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएँ ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को कानूनी ढंग से एवं निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में श्री रुपेश अग्रवाल, प्रबंधक भागीदार इनकी अनुउपस्थिति में श्री शशिकांत तिवारी मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

- (क) केवल कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ही सूचना में निर्धारित प्रकार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र होंगे।
- (ख) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य कम्पनी द्वारा 1 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया गया है।
- (ग) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 09.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 2023 को 05.00 बजे अप. भा.मा.स. समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और कथित तिथि के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी।
- (घ) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 तक शेयर धारण करता वह evoting@nsdl.co.in अथवा evoting@naukri.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।
- (ङ) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर लेने के पश्चात उसे मतदान बदलने की अनुमित नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।
- (च) सदस्य ध्यान दें कि 28वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.infoedge.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी और निरीक्षण हेत् किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगी।
- (छ) सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी एनएसडीएल की वेबसाइट पर एजीएम वेबकास्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। सदस्य इसे अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरण का उपयोग करके https://www.evoting.nsdl.com पर एक्सेस कर सकते हैं। वेबकास्ट सुविधा शुक्रवार, 25 अगस्त, को 5.30 बजे अप. से उपलब्ध होगी।
- (ज) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं वे एजीएम की सुचना में प्रदत्त प्रक्रिया का अनुपालन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें।
- (झ) एजीएम में मंजूरी मिलने पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के भूगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में तय किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, लाभांश वारंट/डिमांड डाफ्ट/चेक उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गये हैं) और कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट-मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड (लिंकइनटाइम) (जहां शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं) के साथ फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक प्रपत्रों में निर्धारित विवरण केवाईसी https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor Services CS पर भी उपलब्ध हैं।
- (ञ) सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, (आईटी अधिनियम) में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर प्रासंगिक घोषणा, निर्देशों और
 - https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor Servic>es Tax पर जाएं। दस्तावेजों को 14 अगस्त, 2023 को या उससे पहले https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-ofform-15g-15h.html पर अपलोड करना आवश्यक है। 14, अगस्त 2023 के बाद कर-रोकने वाले मामलों के संबंध में सदस्यों से कोई संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेयरधारक इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए dividend.tds@infoedge.com को लिख सकते हैं।
- (ट) इलेक्टॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित किसी शिकायत/पृछताछ के लिए सदस्य सुश्री पल्लवी म्हात्रे, ई-मेल evoting@nsdl.com, सम्पर्क नं. 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 से सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित किसी जानकारी के लिए कम्पनी के कॉर्पीरेट कार्यालय पर सुश्री जया भाटिया, कम्पनी सचिव से बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उ.प्र.), दूरभाष : +91-120-3082005, ई-मेल : evoting@naukri.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानसार कृते इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड जया भाटिया

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नंबर 123, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122001, हरियाणा सीआईएन नंबर: U74999HR2010PLC092002 | इमेल: makesense@infoedge.com

फॉर्म नं. सी.ए.ए. 2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) और कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के अनुसार] राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ में सीए (सीएए) संख्या/23/सीएचडी/एचआखाई/2023

और कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागु प्रावधानों के मामले में

पीबी फिनटेक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की समामेलन की योजना के मामले में

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी **मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**, कॉर्पोरेट पहचान संख्या U74999HR2010PLC092002 है और पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 123, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122 001, हरियाणा ... कंपनी/अन्तरक कंपनी

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ('अधिकरण') ('अधिकरण आदेश') द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2023 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी' या 'अन्तरक कम्पनी') के साथ पीबी फिनटेक लिमिटेड ('अन्तरिती कम्पनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ समामेलन की प्रस्तावित योजन ('योजना') पर विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करने के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक ('बैठक') शनिवार, 2 सितंबर 2023 को सुबह 10.30 बजे (भा.मा.स.) आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकरण के आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार, और अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, आगे नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

अधिकरण आदेश के संदर्भ में, योजना की प्रति के साथ उपरोक्त बैठक की व्यक्तिगत सूचना, अधिनियम की धारा 102 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम 2016 ('सीएए नियम') के नियम 6 के तहत विवरण और सभी अनुलग्नक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन इक्विटी शेयरधारकों (1 अगस्त, 2023 तक) को पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''एलआईआईपीएल''), या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त बैठक की सूचना और संलग्न दस्तावेज लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी डाले गए हैं, जो उपरोक्त बैठक के लिए ई–वोटिंग और अन्य सुविधाए प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी है।

ट्रिब्यूनल ने डॉ. सुरेखा टुकराल, अधिवक्ता और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती कृष्णा अनमोल सिंह, अधिवक्ता को किसी भी स्थगन या आस्थगन सहित कंपनी की उपरोक्त बैठक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, और श्री निखिल सचदेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी की उपरोक्त बैठक के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

चुंकि, बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी, शनिवार, 26 अगस्त 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वार बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. केवल वही नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने और बैठक में भाग लेने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर इक्विटी शेयरधारक नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के पास वस्तुतः आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (क) वर्चुअल रूप से वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर मतदान करने ('बैठक में ई–वोटिंग'); य (ख) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा और विकल्प का उपयोग करने की उपलब्धत होगी। ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तारीख और बैठक की रिमोट ई-वोटिंग के लिए समय अवधि इस प्रकार है:

1	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	
l	ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि	शनिवार, २६ अगस्त, २०२३
l	रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि तथा समय	मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को 09.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)
l	रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि तथा समय	शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 को 05.00 बजे अप. (भा.मा.स.)
l	किसी इक्विटी शेयरधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमो	iं का उपयोग करके वोट डालने, यानी (i) रिमोट ई-वोटिंग; और (i

बैठक में ई–वोटिंग की सुविधा एलआईआईपीएल द्वारा प्रदान की जा रही है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के अंत में, उसके बाद वोटिंग के लिए एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले कंपनी के इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपन वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग के निर्देश बैठक की सूचना में दिए गए हैं। कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढें।

उपर्युक्त योजना, यदि इक्विटी शेयरधारकों द्वारा उनकी बैठक में अनुमोदित की जाती है, तो अधिकरण की बाद की मंजूरी और नियामक या अन्य प्राधिकरणों की ऐसी अन्य मंजूरी, अनुमति और मंजूरी, जो अपेक्षित हो, के अधीन होगी।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारक योजना या बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले कंपनी को makesense@infoedge.com पर ईमेल करें।

दिनांक: 1 अगस्त, 2023 स्थानः मोहाली

डॉ. सुरेखा ठुकराल बैठक के लिए अधिकरण द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

www.readwhere.com